

Dixon

An ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 Company

Dixon Technologies (India) Ltd.

(Formerly Known as Dixon Technologies (India) Pvt. Ltd)

CIN : L32101UP1993PLC066581

Regd. Office : B-14 & 15, Phase-II, Noida-201305, (U.P.) India, Ph.: 0120-4737200

E-mail : info@dixoninfo.com. Website : http://www.dixoninfo.com, Fax : 0120-4737263

18th May, 2018

| | |
|--|---|
| To Secretary Listing Department BSE Limited Department of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 | To Secretary Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Mumbai - 400 050 |
| Scrip Code - 540699 ISIN: INE935N01012 | Scrip Code- DIXON ISIN: INE935N01012 |

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of copies of newspaper publication under Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In furtherance to our letter dated 17th May, 2018 and pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Notice of the Board Meeting published in the following newspapers on 18th May, 2018:

1. Business Standard- English
2. Business Standard- Hindi

We request you to kindly take this on your record.

Thanking You,

For DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED


Ashish Kumar
Gr. Company Secretary and Compliance Officer



Encl: as above

Church Pension Fund-11.3%; and
 Lakshmi Emerging Markets Master Fund Blue-10.03%.

There is no natural person who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than 15% of shares or capital or profits of Steadview Capital Management Limited. Further, Steadview Capital Management LLC is the investment manager of Steadview Capital Mauritius Limited, and Mr. Anand Mehta is the Managing Director of Steadview Capital Management LLC.

ABG Capital, a SEBI registered Category III FPI: MIT Investments Limited. L.P. holds 100% of the participating shares of ABG Capital. There is no natural person who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than 15% of shares or capital or profits of MIT Investments 2010, L.P. Further, Mr. Seth Alexander is the President of MIT Investment Management Company which manages MIT Investments 2010, L.P.

LTR Focus Fund, a SEBI registered Category II FPI: Endowment of Yale University holds 100% of the participating shares of LTR Focus Fund. There is no natural person who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than 15% of the shares or capital or profits of the Endowment of the Yale University. Further, Mr. David F. Swensen is the Investment Officer/ Senior Managing Official of Endowment of Yale University.

of Para 8 of the Explanatory Statement of Item No. 1 to the Schedule stands replaced as under:

Equity Shares proposed to be issued to M/s Steadview Capital Management Ltd., M/s ABG Capital and M/s LTR Focus Fund, under the preferential offer, are approx. 6.27%, 2.18% and 1.53%, respectively, and post allotment fully diluted equity share capital of the Company representing conversion of all existing convertible securities i.e. (i) conversion of outstanding 30,900,000 Warrants, by the Promoter entities, into equivalent Equity Shares of the Company, and (ii) issue of 4,566,600 Equity Shares of the Company, pursuant to exercise of 66,600 outstanding Employees stock options by option holders. Further, considering the pre-preferential shareholding of 74,548 equity shares of M/s Steadview Capital Mauritius Limited in the Company, its holding would be approx. 6.34% of the post preferential fully diluted equity share capital of the Company.

of Para 10 of the Explanatory Statement of Item No. 1 to the Schedule stands replaced as under:

Preferential allotment shareholding, if any, of the said allottee shall be locked-in from the Relevant Date up to a period of six months from the date of trading approval as per Regulation 78(6) of Chapter VII of the ICDR Regulations. M/s Steadview Capital Mauritius Limited has a pre-preferential shareholding of 74,548 equity shares in the Company, which are held in dematerialized form and have been placed under lock-in, in compliance with said Regulation 78(6). Further, there has been no pledge of the said pre-preferential holding from the relevant date April 20, 2018 till the date of commencement of lock-in on May 5, 2018.

are requested to consider the resolution vide Item No. 1 of the Schedule dated April 25, 2018, keeping in view the above mentioned additional information. This second Corrigendum should be read in conjunction with the first corrigendum as mentioned above and other notices or intimations wherever relevant.

issuance of the fresh certificate of incorporation, dated May 16, 2018, by the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana (ROC), the Company stands changed from 'SORIL Holdings and Ventures Limited' to 'Indiabulls Integrated Services Limited' with effect from the date of approval by ROC, i.e. May 16, 2018. The said name change has been approved by the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited on our letter dated May 16, 2018. The Company is in process of seeking approvals from NSE and BSE for trading of its equity shares under the new name - Indiabulls Integrated Services Limited. Till then, the Company shall continue to trade under its previous name - SORIL Holdings and Ventures Limited with BSE Scrip Code - 533520 and NSE Listing ID. The former name of SORIL Holdings and Ventures Limited shall continue to be used for all purposes.

By order of the Board of Directors
For Indiabulls Integrated Services Limited
 Sd/
 Priya Jain
 Company Secretary

Dixon
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LIMITED
 Registered Office: B-14 & 15, Phase-II, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201305
 E-Mail: investorrelations@dixoninfo.com, Website: www.dixoninfo.com
 Phone: +91-120-4737200, Fax: 0120-4737263, CIN: L32101UP1993PLC066581

NOTICE
 Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 26th May, 2018 to inter-alia:

1. Consider and approve the audited standalone and consolidated financial Statements and results of the Company for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2018 along with Statement of Assets and Liabilities as on 31st March, 2018,
2. Consider and recommend dividend, if any, on Equity Shares of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2018;
3. Consider approval of Employee Stock Option Plan (ESOP), if any.

Further, in accordance to the Reg. 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details of the aforesaid meeting are available on the website of the Company i.e. www.dixoninfo.com and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).
 For Dixon Technologies (India) Limited
 Sd/
 Place: Noida Ashish Kumar
 Date: 17.05.2018 Gr. Company
 Secretary & Compliance Officer

[एलएलपी नियमवली, 2009 के नियम 17 के अनुसार]
समस्त कंपनी पंजीयक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
 सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) और एलएलपी नियमवली, 2009 के नियम 17 के मामले में
 और
 एलएलपी (एलएलपी आईएन: एएएम-4039) पंजीकृत कार्यालय स्थित मकान नं. 138, गली नं 3/ए, सिंधु फार्म रोड मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली-110019 से आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
 यदि किसी व्यक्ति का हित प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता है तो वह इस सूचना प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर अपने हित की प्रकृति और याचिका के प्रति अपने विरोध का आधार बताते हुए शफ़्टपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कंपनी पंजीयक को सुपुर्द या प्रस्तुत करें या पंजीकृत डाक से भेजें। साथ ही इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को अचॉटिलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में प्रेषित/प्रस्तुत करें।
 मकान नं 138, गली नं 3/ए, सिंधु फार्म रोड मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली-110044
 एलएलपी आईएन: एएएम-4039 की ओर से न उन्हीं के लिए हस्ता./-

...याचिकाकर्ता
सामान्य सूचना
 एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अपने पंजीकृत कार्यालय को 'रा.रा. क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा' में स्थानांतरित करने के लिए 12 मई, 2018 को आयोजित भागीदारों की बैठक में पारित संकल्प के अनुसार एलएलपी कारर के परिवर्तन की स्वीकृति हेतु एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के तहत एलएलपी कंपनी पंजीयक, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा स्थित 4वां तल, आईएफसीआई टॉवर नंबर 4, नई दिल्ली-110019 से आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
 यदि किसी व्यक्ति का हित प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता है तो वह इस सूचना प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर अपने हित की प्रकृति और याचिका के प्रति अपने विरोध का आधार बताते हुए शफ़्टपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कंपनी पंजीयक को सुपुर्द या प्रस्तुत करें या पंजीकृत डाक से भेजें। साथ ही इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को अचॉटिलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में प्रेषित/प्रस्तुत करें।
 मकान नं 138, गली नं 3/ए, सिंधु फार्म रोड मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली-110044
 एलएलपी आईएन: एएएम-4039 की ओर से न उन्हीं के लिए हस्ता./-

विप... और... (ए... इलाकर... के... है, कं... के... 'बीलय... की... यह... परि... है।... कता... इस... कहा, अन्य... में... जा... मति... का... कर... की दीर्घावधि योजना को झटका है। दो अधिकारियों ने बताया कि 2017 में कोई उल्लेखनीय आयत नहीं होने के बाद इस साल के शुरुआत से ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सरकारी बिजली अधिकारियों ने कोयले की कई खेपों के आदेश दिए हैं। देश के पूर्वी तट पर स्थित राज्य आंध्र प्रदेश के ऊर्जा विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी अजय जैन ने कहा कि राज्य ने इस साल अब तक 2 लाख टन कोयले का आयात किया है और 2018 में 10 लाख टन कोयले का आयात कर सकता है। उन्होंने कहा, 'यदि हम केवल कोयले पर ही निर्भर होते तो इससे आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती थी।' तमिलनाडु के एक सरकारी उपक्रम तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन

कोयला आयात शून्य करने की बात कही थी। लेकिन उत्पादन के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी के तौर पर सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड इन दिनों अपनी खदानों से बिजली संयंत्रों तक ईंधन पहुंचाने के लिए ट्रेनों की कमी से जूझ रही है। जैन और कपूर दोनों ने बताया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य अब जून में शुरू होने जा रहे पवन ऊर्जा के मौसम का इंतजार कर रहे हैं जब कोयले पर उनकी निर्भरता में कमी आएगी। घरेलू लांजिस्टिक के मार्ग में बाधा, नियामकीय बदलावों और बिजली की बढ़ती मांग के चलते 2018 में तापीय कोयले के आयात में बढ़ोतरी हो सकती है।

कू 3127 परिणाम संख्या **3126**

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 8 | 3 | | | | | | |
| 7 | | | 6 | 3 | | | |
| | | | 2 | 1 | | | |
| 6 | 4 | | 8 | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 8 | 6 | | 5 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 |
| 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 |
| 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 |
| 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 |

कैसे खेलें?
 हर रौ, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान
 ★
 ☆
 ☆
 ☆
 ☆

राजस्थान पंजाब

अनाज: चावल डीबी 6100/6200, गेहूँ (मिल) 1630/1640, मक्की 1300/1325, बाजरा 1170/1180, जौ 1250, ग्वार लूज 3700/3750, ज्वार कैटलफीड 1300/ 1325, ज्वार बेस्ट क्वालिटी 1900/2000, तेल-तिहनन: सरसों(मिल पहुंच) 3950, सरसों एक्स्पेलर निवाई 7500, कोल्हू कधी घनी टैंक 7700, डीओसी (टन): सरसों जयपुर 15400, कोटा 15200, अलवर 15200, निवाई x श्रीगंगानगर गेहूँ (डेरी) 7700/1725, ग्वार 3700/3800, जौ नया 1200/1250, सरसों लूज 3450/3500, बिनाला खल x जोधपुर गेहूँ 1740/1750, जौ 1400/1450, पोपकोन मक्की 3900/4000, ग्वार 1350, चना 3500/3600, कबली चना 6000/6500, मूंग 4400/4500, मोठ 3000/3200

खाना
 जीएसटी अतिरिक्त (प्रति किं): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)102, राइसब्रान (अखाद्य) 100, खल सरसों 1830, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 650, लाल 650, कटीन्डूअस 730, सरसों (टन) 15700, सूरजमुखी (टन) 16000, अनाज: गेहूँ 1750/1760, आटा (50 किलो) 960, मैदा 1040, चोकर (49 किग्रा) 830, चोकर (30 किग्रा) 490

फाजिल्का
 गेहूँ 1660/1670, सरसों 3580/3650, ऊई (प्रति मन): (जे-34) 4300/4350, कपास देशी 3650/3700, कपास नरम

